



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2007/आश्विन 16, 1929

No. 304]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2007/ASVINA 16, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2007

विषय : स्विट्जरलैंड तथा चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/11/2005-डीजीएडी.—यतः 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/11/2005-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए हैं ।

उक्त अधिसूचना के अंत में दी गई शुल्क तालिका के कालम संख्या 2 और 3 में एतद्वारा सुधार किया जाता है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

कालम सं. 2 : टैरिफ लाइन : 29362100

कालम सं. 3 : वस्तु विवरण : विटामिन ए पामिटेट (विटामिन ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम को छोड़कर)।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th October, 2007

Subject : Anti-Dumping Investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from Switzerland and China PR.

No. 14/11/2005-DGAD.—Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority has issued the Final Findings *vide* Notification No. 14/11/2005-DGAD dated 14th September, 2007 in the subject anti-dumping investigation.

The Column Nos. 2 and 3 of the duty table at the end of the said notification are hereby corrected to read as follows :—

Column No. 2 : Tariff Line : 29362100

Column No. 3 : Description of goods : Vitamin A Palmitate (Excluding Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/gm).

R. GOPALAN, Designated Authority